



NY State of Health न्यूयॉर्कवासियों को किफ़ायती स्वास्थ्य बीमा के साथ जोड़ता है

हम आपको स्वास्थ्य योजनाओं की तुलना करने और आपके और आपके परिवार के लिए सही कवरेज ढूँढने में सहायता करते हैं।

NY State of Health कम या बिना प्रीमियम वाली योजनाएं, निःशुल्क निवारक सेवाएं, प्राथमिक देखभाल के लिए कोई सह-भुगतान नहीं, और कम लागत वाले नुस्खे प्रदान करता है। अन्य न्यूयॉर्क निवासीओं के लिए कम स्वास्थ्य बीमा लागत के लिए विस्तारित संघीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

कार्यक्रमों में शामिल हैं:

- 1 Medicaid
- 2 Child Health Plus
- 3 Essential Plan
- 4 Qualified Health Plans

जब आपका नामांकन होता है, तो अपने परिवार के सभी सदस्यों की यह जानकारी तैयार रखें:

- ✓ जन्मतिथि
- ✓ सामाजिक सुरक्षा नंबर या, वैधानिक अप्रवासियों के लिए, दस्तावेज़ नंबर, अगर आपके पास हों
- ✓ रोजगार, आय और नियोक्ता द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा संबंधी जानकारी

नामांकन या अधिक जानने के लिए हमसे संपर्क करें:

- nystateofhealth.ny.gov को देखें
- 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) पर कॉल करें
- किसी नामांकन सहायक से निःशुल्क सहायता प्राप्त करें। इसे यहां खोजें: <https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor>

नामांकित व्यक्तियों के लिए जानकारी

यदि आप NY State of Health के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा में नामांकित हैं, तो जुड़े रहें ताकि आप महत्वपूर्ण अपडेट से न चूकें, जिसमें आपके कवरेज का नवीकरण करने का समय भी शामिल है।

- 1** टेक्स्ट अलर्ट के लिए साइन अप करें।
सदस्यता लेने के लिए, 1-866-988-0327 पर START लिखकर भेजें
- 2** अपने खाते की जानकारी अपडेट करें।
सुनिश्चित करें कि NY State of Health के पास आपका वर्तमान डाक पता, फ़ोन नंबर और ईमेल पता है ताकि हम आपके स्वास्थ्य बीमा के बारे में आपसे संपर्क कर सकें।
 - 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) पर कॉल करें
 - nystateofhealth.ny.gov पर अपने खाते में लॉग इन करें
 - किसी नामांकन सहायक से संपर्क करें। इसे यहां खोजें: <https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor/>
- 3** जब आप NY State of Health से सूचना प्राप्त करते हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य बीमा पर कार्रवाई करने का समय है।
महत्वपूर्ण जानकारी और नोटिस के लिए अपना इनबॉक्स और मेलबॉक्स देखें। निर्देशों का पालन करें और दी गई समय-सीमा तक अपने कवरेज का नवीनीकरण करें।

हम मदद करने के लिए यहां उपलब्ध हैं!
यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो हमसे संपर्क करें।